



Dhampur Sugar Mills Limited

241, Okhla Industrial Estate, Phase- III

New Delhi – 110 020, India

Tel: +91-11-3065 9400, 4161 2456

Tele Fax +91-11-2693 5697

E - Mail : corporateoffice@dhampur.com

Website: www.dhampur.com

05.09.2020

To,
Asst. Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Asst. General Manager
Dept of Corp. Services,
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai: 400001.

Dear Sir,

**Reg: Newspaper Advertisement regarding the 85th Annual General Meeting (AGM),
E-Voting Instructions and Book Closure**

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), please find enclosed copies of the Newspaper Advertisement published on 05th September, 2020 in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) both also having electronic editions, in compliance with MCA General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 in relation to the 85th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 2.00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz.,
www.dhampur.com

We request you to take the above information on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Dhampur Sugar Mills Limited

APARNA Digitally signed
by APARNA GOEL
GOEL Date: 2020.09.05
19:36:13 +05'30'
Aparna Goel
Company Secretary
M.No. 22787

CIN: L15249UP1933PLC000511
Regd. Offc: Dhampur, Distt. Bijnor, Pin Code : 246761 (U.P.)
Branch Office : 1/125, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow -226010 (U.P.), Tel : +91-522-239243
Sugar Units:1. Dhampur,2. Mansurpur,3. Asmoli, 4. Rajpura,5. Meerganj
Distillery: Asmoli & Dhampur

Jio cuts to grow

But the jury is out on its rock-bottom pricing for the broadband venture



SURAJEET DAS GUPTA
New Delhi, 4 September

Unlike the runaway success of its telecom services, Reliance Jio's broadband venture has been underwhelming. A year after its commercial launch, the broadband business has less than a million subscribers, less than half of key rival Bharti Airtel's 2.4 million connections. Seen in relation to the company's ambitious target to enter 50 million homes and enterprises, the numbers appear even smaller.

But this week Jio decided to take action, announcing an aggressive unlimited broadband service with an entry price of ₹399 with 30 mbps speed. The killer is not only the price; all the new packs offer unlimited usage, which is a new industry standard. Bundled offers with over-the-top (OTT) subscriptions are also virtually unmatched — ₹999 for 11 channels (Amazon Prime, Disney Hotstar, Zee 5, Sony Liv, Alt Balaji, Voot amongst others but not Netflix). To include Netflix, and also get speeds of 300 mbps and all the other 11 OTT channels, the price tag is ₹1,499.

The offers could force Airtel or BSNL to rethink their price strategies. Airtel, for instance, does not have an unlimited package and its entry-level pack is at ₹799. For the past two years, Airtel has also reduced its bundled offerings, with Netflix and Hotstar no longer on offer in their plans. For BSNL, its lowest offering is at ₹499 but with a cap on usage and lower speeds — and it has faced serious issues on reliability. A spokesperson of Airtel declined to comment on their moves.

This is an opportune time to drop prices. Sources in Jio say that the feedback from customers was clear — it needed to launch value-for-money packs especially in smaller cities had to be tapped. More so, when Jio fibre broadband had been rolled out in more than 1,600 cities compared to just 117 cities for Airtel.

WIRED UP

Company	Wired broadband customers (In millions)
BSNL	7.93
Bharti Airtel	2.41
Atria Convergence	1.61
+Hathway Cable	0.97
Reliance Jio	0.97

Source: TRAI, for month ending May 31
+Hathway has been bought over by Reliance

With the Covid-19 pandemic and the consequent shift to work from home, the needs of online education and home entertainment have expanded exponentially, making it the right time to capitalise on the opportunity by introducing a value price.

A price drop may be one way of stoking growth in the fixed broadband market. Fixed broadband penetration is just 6 per cent (19 million households), one of Asia's lowest. But Citibank estimates that the addressable market is around 72 million households (24 per cent of the total) at an average revenue per user (ARPU) of ₹750. Yet the biggest competition for fixed broadband comes from 4G mobile data, which is offered at rock bottom prices with generous data plans and serves the needs of most consumers.

So will a fall in tariffs create the magic? Telecom analyst Mahesh Uppal does not think so. He says the impediment for expansion of Jio's fixed broadband has nothing to do with price. "If the problem was about lower prices, Reliance would have brought it down from the very beginning, as it did in mobile services, which is a much larger market. Creating that physical infrastructure is a challenge because obtaining rights of way is difficult and time-consuming and mired in local regulations, and there is the presence of competing local cable operators," he points out. To be sure, Jio has tried to fix the latter problem by partnering with some operators and buying up the bigger

ones such as Hathway and Den Networks.

So Airtel might not have to worry about any serious churn to Jio. For the Sunil Mittal-promoted company, fixed broadband is just 3 per cent of its consolidated revenues and despite the launch of Jio a year ago, it has been able to maintain ARPU of ₹800. Also, with Airtel's broadband customers limited to the top cities it might not even want to match Jio's prices.

In fact, Jio's initial plans were more or less in line with what Bharti Airtel used to offer (₹699 for 100 GB). Analysts in Citibank believe a significant churn is not expected, considering this segment displays a high level of customer stickiness (unlike a mobile service, it is not that easy to shift because subscribers have to pay for a set-top box and broadband device) and that Airtel has ring-fenced them with its Xtreme offering (a DTH box comes with built-in Chromecast with access to 500-plus TV channels) and bundled packages. But new customer acquisition could be impacted with the lower tariff offerings — so Airtel might have to make some tariff adjustments.

Meanwhile, the arduous rollout of fibre has encouraged Bharti to make bets on DTH and, more recently, on low-orbit satellites to bring broadband to remote homes. On the other hand, Reliance Jio has bet purely on fibre, which, it argues, is a one-time investment and provides far better returns in the long run.

The jury is still out on which is a more effective way to reach homes. BofA Global Research points out that replicating the mobile services model in broadband offers the prospect of monetising a large user base. Just as low tariffs brought in a large number of customers that could be monetised via digital ads, subscriptions and so on, Jio is betting on the uptake of gaming, edutech, health care along with its entertainment OTT channels on TV-Jio to get more eyeballs and thus more ad and subscription revenues. If that works, it would be a different business model altogether.

Why the bond market loves India's tax mess

ANDY MUKHERJEE
4 September

Emerging markets will exit the coronavirus pandemic with a heavy fiscal load. Many will see their public debt balloon; some will also have to carry a bigger interest burden. A smaller group may need costly repairs to broken banks.

India may be hit on all three counts, plus have an additional problem: a consumption tax in shambles. It's a gloom-and-doom scenario, but the bond market loves it.

The market is pleased because it's getting concessions from panicky authorities. The Reserve Bank of India has told banks that if they buy another 3 trillion rupees (\$41 billion) of government bonds, they can park them in a bin that doesn't have to be marked to market. Why is a lollipop of loss protection needed? Won't banks anyway want the safest possible securities after a 23.9 per cent plunge in India's June-quarter gross domestic product, the steepest of any major economy?

Blame the pandering on a collapsing tax edifice. The federal government is refusing to honour the 14 per cent annual increase in revenues it promised India's 29 states three years ago. The commitment took no account of either a state's past tax collection, or the risk of future shocks like Covid-19. It was a bribe to coax them to forgo their own sales levies and adopt a nationwide goods and services tax, or GST. New Delhi is reneging on the obligation because the bucket of additional luxury taxes created to fulfil the guarantee is empty.

The states are entitled to



\$40 billion. The money flowing into the compensation kitty this fiscal year, however, is estimated to be a mere \$9 billion. Cars, cigarettes and other goods that attract sin taxes simply couldn't be sold during the nationwide lockdown between March and May.

Prime Minister Narendra Modi's government wants to bifurcate the \$31 billion shortfall to \$13 billion on account of switching to GST and \$18 billion because of an "Act of God," as his finance minister described the pandemic. States have been given two options. One, raise \$13 billion via a special

The bond market is largely unperturbed by the chaos, knowing that New Delhi is terrified of its wrath

central bank-managed facility. Subsidised interest and principal would be paid out of future sin taxes by extending the five-year compensation deal. Of the remainder, they'll be allowed to borrow another \$14 billion but must service it. About \$4 billion may have to be forgone. Or, states can raise the entire \$31 billion from the market and bear the interest.

Some states are threatening

to sue the federal government over what the main opposition Congress Party is calling a sovereign default. It's more of a moral dereliction, though. States are owed money from the compensation fund, but New Delhi isn't obliged to fill it. (The Modi government did, however, set a bad precedent by helping itself to a part of the sin-tax GST for two initial years as though it was its own revenue, before putting the money back.)

The bond market is largely unperturbed by the chaos, knowing that New Delhi is terrified of its wrath and ignoring the simplest option: Raise money on its own to fund sub-national governments.

The economy's worst contraction may be in the rear-view mirror, but India's infection rate is at a record high for any country. If states are forced to trim expenditure, the recession will be deeper and welfare outcomes worse than now. New Delhi won't shed the fiscal load by dumping it on states that can't print money.

With risks come rewards. Banks, the main financiers of India's government, know they'll be pampered every time they push the yield on benchmark 10-year notes higher for a few days. Their displeasure could even lead the brinkmanship between New Delhi and the states to a revamp of the GST.

The insanely complex levy has multiple rates, yet exorbitant taxes on petroleum are applied separately. The compliance burden is high, but fraud is rampant. Exporters that would compete better without being saddled with domestic taxes on inputs have to run around for refunds. If it's not reformed, the tax may suffer the same fate as Malaysia's short-lived GST, which didn't survive even one change in government.

Thomas Isaac, finance minister of Kerala, says he's "angry for being taken for a ride". The state's economy is sputtering. Among other dislocations, remittances by its workers in the Middle East have dried up. The pain needs a palliative, but also a longer-term cure: a better GST. If that happens, the bond market will be rewarded with upgrades to India's credit rating. After exhausting the appeasement of bond bears, politicians will do the right thing. That's what the market is hoping.

Wobbly finances aren't just India's problem. Brazil and South Africa, too, will see their public debt ratios surge, while Indonesia may also have to spend a bigger share of revenue on interest, according to Moody's Investors Service. Backstopping the lenders may be more costly for Turkey, where banks rely on wholesale dollar funding. India doesn't have a pool of savings deep enough to absorb a spike in government deficits. Only a handful, like Chile, Saudi Arabia and Malaysia, have that luxury.

With risks come rewards. Banks, the main financiers of India's government, know they'll be pampered every time they push the yield on benchmark 10-year notes higher for a few days. Their displeasure could even lead the brinkmanship between New Delhi and the states to a revamp of the GST.

The insanely complex levy has multiple rates, yet exorbitant taxes on petroleum are applied separately. The compliance burden is high, but fraud is rampant. Exporters that would compete better without being saddled with domestic taxes on inputs have to run around for refunds. If it's not reformed, the tax may suffer the same fate as Malaysia's short-lived GST, which didn't survive even one change in government.

Thomas Isaac, finance minister of Kerala, says he's "angry for being taken for a ride". The state's economy is sputtering. Among other dislocations, remittances by its workers in the Middle East have dried up. The pain needs a palliative, but also a longer-term cure: a better GST. If that happens, the bond market will be rewarded with upgrades to India's credit rating. After exhausting the appeasement of bond bears, politicians will do the right thing. That's what the market is hoping.

Bloomberg

DECODED

GST compensation: What the Centre and states disagree on

TCA SRINIVASA RAGHAVAN

The Goods and Services Tax (GST) compensation to the states has been in the news lately, with most people confused about what the issue is, what the amounts in question are, how they are calculated, and what the Centre's duty is. Here's a quick breakdown of the relevant details.

What is GST compensation?

One of the main reasons the states agreed to get on board with a nationwide GST was because the Centre promised to fully compensate them for any losses that might arise from the implementation of GST for the first five years.

This compensation is to be paid from a Compensation Fund. This fund is replenished through a cess that is levied on items in the 28 per cent GST slab. The GST Compensation Act specifies how the compensation amount is to be calculated. The assumption is that the states would see a 14 per cent increase in revenues regardless of GST, and so, if for the first five years they do not see this increase, the Centre would compensate them the difference.

This system has so far been successful, with the Centre being able to pay full compensation for the first three years of GST.

What is the issue?

The current financial year is far from normal. Covid-19, the lockdown, and the subsequent limp towards normalcy will mean GST revenues and cess collections will both be far below normal. The finance secretary has already informed a Parliamentary Standing Committee that cess collections will not be enough to pay the compensation.

The issue has been discussed before, as



shown by the minutes of the fifth, seventh and eighth GST Council meetings. It was agreed during these meetings that a shortfall in the Compensation Fund would not be met from the Consolidated Fund of India. It was also decided that the GST Council would take a call as to what to do when such a situation arose.

That situation has now arisen and so, during the 41st meeting of the GST Council on August 27, GST compensation was the sole agenda item.

What is the Centre's argument?

The Centre argues that the GST Compensation Act is a legislation "to provide for compensation to the States for the loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax". The burden of compensating losses arising due to Covid-19 or any other reason that don't have to do with GST implementation, therefore, is not the Centre's responsibility, it argues.

Therefore, during the August 27 meeting, the Centre gave states two options. Under the first, states could borrow ₹97,000 crore (which the Centre says is their loss in revenue attributable to GST implementation) from the Reserve Bank of India (RBI)

at a concessional rate to be negotiated by the Centre. In this option, the increased borrowing by the states would be over and above any other borrowing ceilings. Further, the principal and interest would be paid using the compensation cess, so there would be no added burden on the states.

The second option is for the states to borrow the entire loss amount (attributable to GST, Covid-19 and any other factor) of ₹2,35,000 crore from the RBI. However, this borrowing would be included in the borrowing ceilings set for the states, which would crimp their borrowing ability for other uses. Further, the states would have to pay the interest from their own finances. The compensation cess would only pay the principal of the loan.

The states were given a week to decide which option they preferred.

What is the states' view?

The states argue that they gave up a lot of their previous autonomy over revenue generation when they signed on to GST. They would have been able to mitigate the Covid-19 impact using other revenue-generating measures if they had not committed to GST, they say. Therefore, they say the Centre should compensate them for the full loss amount and it should be the Centre that borrows the funds needed.

What next?

According to reports, 10 states are set to reject the two borrowing options provided by the Centre. The first, they say, is too little to compensate them and the second involves the states paying the interest on the loan, which is an unfair burden.

The GST Council can, for the first time ever, take the issue to a vote. The states together account for two-thirds of the vote, and the Centre for one-third.

MAHESHWARI LOGISTICS LIMITED
CIN: L50232GJ2009PLC049224

Registered Office: MLL House, Shed No. A2-3/2 OPP. UPL 1st Phase, GIDC, Vapi Valsad Gujarat- 396195. Tel. No. 260-2431024 Fax. No. 022-2427024 Website: www.mlpl.biz Email: info@mlpl.biz

PUBLIC NOTICE REGARDING 14TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM).

Notice is hereby given that,

- This is to inform that **14th Annual General Meeting (AGM)**, of the Company will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 2.00 p.m. (IST) through video conference (VC)/ other Audio-Visual means (OAVM).
- In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of AGM through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meeting of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.
- The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020.
- Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.mlpl.biz and website of the Stock Exchanges i.e. NSE Limited at https://www.nseindia.com/ Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting will be provided in the Notice of the AGM.
- The persons who have not registered their email addresses may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP. Said persons can cast their vote by electronic modes by following the prescribe procedure in the notice of AGM.

By Order of the Board
For Maheshwari Logistics Limited
Sd/-
Pareesh Raiyani
Company Secretary & Compliance Officer

Dated: 04.09.2020
Place: Vapi

HOTEL RUGBY LIMITED
CIN: L55101MH1991PLC063265

Register Office: 2, Ground Floor, 9, Dev Bhuvan, Gazdar Street, Chira Bazar, Kalbadevi, Mumbai - 400002. Tel. No. 022 - 67470380
Email: rugbyhotel@rediffmail.com | Website: www.hotelrugby.co.in

PUBLIC NOTICE - 29th ANNUAL GENERAL MEETING

This is to inform you that in view of the outbreak of the Covid-19 pandemic, the Annual General Meeting ("AGM"/Meeting) of Hotel Rugby Limited (the "Company") will be convened through Video Conference (VC) / other audio visual means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular dated April 8, 2020, General Circular dated April 13, 2020, General Circular dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular").

The 29th AGM of the Members of the Company will be held at 10.30 a.m. (IST) on Tuesday, September 29, 2020 through VC/ OAVM facility provided by the Link Intime India Private Limited ("LIPL") to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The e-copy of 29th Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20 along with the Notice of the AGM, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.hotelrugby.co.in and on Stock Exchange's website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility ONLY, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 29th AGM of the Company in person to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agents ("Registrar") / Depository Participants ("DPs"). As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member. Members who have not registered their email addresses are requested to follow the process mentioned below, for registering their email addresses to receive login ID and password for e-Voting:

- For Physical Shareholders** - please provide necessary details like Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN Card), AADHAAR (self attested scanned copy of Aadhaar Card) by email to rugbyhotel@rediffmail.com.
- For Demat Shareholders** - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self attested scanned copy of PAN Card), AADHAAR (self attested scanned copy of Aadhaar Card) to rugbyhotel@rediffmail.com.
- The company shall co-ordinate with LIPL and provide the login credentials to the above mentioned Shareholders.

For HOTEL RUGBY LIMITED
Sd/-
MAHENDRA THACKER
CEO & DIRECTOR

Place : Mumbai
Date : September 03, 2020

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED
Regd. Office: Dhampur, Distt. Bijnor-246761, U.P.
Corp. Office: 241 Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020
CIN: L15249UP1933PLC000511, Ph: 011-30659400, Fax: 011-26935697
Email Id: investordeskd@dhampur.com, Website: www.dhampur.com

NOTICE OF 85TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 85th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Dhampur Sugar Mills Limited (the "Company") will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 2.00 p.m. (IST) via two-way Video Conferencing ("VC facility")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 (collectively called "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India Circular dated May 12, 2020 ("SEBI Circular"), the Company has completed the despatch of Notice of the 85th AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20 on Friday, 4th September, 2020 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrars and Transfer Agent ("RTA"), Alankit Assignments Limited ("Alankit")/Depositories. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular.

The e-copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company is available on the website of the Company at www.dhampur.com and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also available on the website of National Securities Depositories Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

Remote E-Voting:
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is providing to its Members, the facility of remote e-voting before the AGM and e-voting during the AGM. In respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means.

The detailed instruction for remote e-voting are given in the Notice of AGM. Members are requested to note the following:

- The remote e-voting facility would be available during the following period:
Commencement of remote e-voting: From 9.00 a.m. (IST) on Saturday, September 26, 2020
End of remote e-voting: At 5.00 p.m. (IST) on Monday, September 28, 2020
- The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday September 22, 2020 ("Cut-Off Date"). The facility of e-voting shall also be made available during the Meeting and the Members attending the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be eligible to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before/during the AGM.
- Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, September 22, 2020, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or may contact the toll-free number provided by NSDL: 1800-222-990. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose only.
- The Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again on such resolution(s) for which the Member has already cast the vote through remote e-voting prior to the AGM.
Members who need assistance before or during the AGM can contact NSDL on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavi@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.: +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.
- Mr. Saket Sharma (FCS: 4229) of M/s GSK & Associates, Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting before and during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared along with Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website www.dhampur.com and on website of NSDL www.evoting.nsdl.com and website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Book Closure:
NOTICE IS FURTHER GIVEN pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, as amended from time to time, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Wednesday, September 23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of the 85th AGM of the Company to be held on Tuesday, September 29, 2020.

By order of the Board
For Dhampur Sugar Mills Limited
Sd/-
Aparna Goel
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A22787

Place: New Delhi
Date: 04.09.2020

कब्जा सूचना

जबकि, असेट रिस्ट्रक्चरिंग कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सीएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्च, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/सह-कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	निगत तिथि / कुल बकाया राशि (₹. में)	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
1	जय प्रकाश श्रीवास्तव / पुष्पा देवी / एएलए0031 / एचडीएलएच00003886	19-जून-2018 ₹. 71,23,402.29/-	सांकेतिक 2.09.2020

सम्पत्ति का वर्णन: संपत्ति पर धार जो प्लॉट नंबर- 64, खरसा नंबर-18/6, मौजा-शारन, तहसील बल्लमगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा (नगर निगम के रिकार्डों के अनुसार हाउस नंबर-सी/321, दबुआ के रूप में जाना जाता है) कालोनी, एआइटी फरीदाबाद हरियाणा। (क्षेत्र-100 वर्ग किलोमीटर)। चौहदवी- पूर्व-सोराता 22 फीट चौड़ा, पश्चिम- प्लॉट नंबर 64 का हिस्सा, उत्तर- प्लॉट नंबर 65, दक्षिण- प्लॉट नंबर 63।

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदारों को विधेय रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सीएल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आसितियों का सांकेतिक कब्जा उपपरिर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आसितियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आसितियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सीएल के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: फरीदाबाद, हरियाणा हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 05-09-2020 असेट रिस्ट्रक्चरिंग कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

असेट रिस्ट्रक्चरिंग कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2002PLC134884. वेबसाइट: www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय: 1 दि. रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन: + 91 226581300

शाखा पता: द्वितीय तल, सेटी चैम्बर, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शांतिगेंद, निकट विद्या भवन गैलरी सोनियर सेकण्ड्री स्कूल, एमओआर लेण्ड, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन: 011-46374474

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड

सीआईएन: L55101DL1980PLC011037
पंजीकृत कार्यालय: भोकाजी कामा प्लेस, एम. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110066
फोन: 011 66771225 / 1226, फैक्स: 011 26791033
ई-मेल: investorrelations@ahlnorth.com
वेबसाइट: www.asianhotelsnorth.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 47(1)(ए) के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक रविवार, 13 सितम्बर 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 30 जून 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही के अनकक्षित एक्शन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु आयोजित की जाएगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 47(2) के अनुपालन में, उपरोक्त कक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी की उपरोक्त वेबसाइट तथा बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड के लिए
दिनेश कुमार जैन
वाईएस प्रिसेन्टर (कॉर्पोरेट मामलों)
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 4 सितम्बर, 2020 स. संख्या एफसीएस- 6224

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: धामपुर, सिन्धुद्वार विजयनगर-246761, यु.पी.
कोई कार्यालय: 241, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज III, नई दिल्ली- 110020
CIN: L15249UP1933PLC000511, फोन: 011-30659400, फैक्स: 011-26935697
ई-मेल: investordesk@dhampur.com, वेबसाइट: www.dhampur.com

कंपनी की 85वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 85वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को दोपहर 2.00 बजे (आईएसटी) में दो-तरफा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी सुविधा")/अन्य ऑडियो विडियो साधनों ("ओएसवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 (सामूहिक रूप से "एसीएए परिपत्र") के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") के अनुसार कम्पनी में कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्टों के साथ 85वीं एजीएम की सूचना उन सदस्यों को शुक्रवार, 04 सितम्बर, 2020 को भेज दी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), अल्टिमैट असाइनमेंट्स लिमिटेड ("अल्टिमैट")/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्टों की नौकित प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता एसीएए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों के साथ एजीएम की सूचना की ई-प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.dhampur.com पर उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com के संलग्न वेबसाइटों से भी प्राप्त किया जा सकता है। एजीएम की सूचना नेशनल सिन्डिकेटिड रिजॉल्यूटिव लिमिटेड ("एनएसईएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी प्रवर्तन (पूर्व प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता विनियम) एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक ("एएसए-2"), समय-समय पर यथासंशोधित के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम में निष्पादित किये जाने वाले व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पूर्व रिपोर्ट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान अपना ई-वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है और इस प्रयोजन के लिए कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को सुगम बनाने के लिए एनएसईएल की सेवाएँ भी हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित को नोट करें:

ए. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ	शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 की सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से
रिमोट ई-वोटिंग का समाप्ति	सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 की शाम 05.00 बजे (आईएसटी) तक

उसके बाद एनएसईएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा दिया जाएगा और कक्षित तिथि एवं समय के बाद सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिकी वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बी. सदस्यों का वोटिंग अधिकार मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 ("कट-ऑफ तिथि") को कम्पनी की प्रदत्त इन्व्स्टि शेयर पूजी के उक्त शेयर के आनुपातिक होगा। बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी/ओएसवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही बैठक के दौरान अपना वोट दे पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्ट्रार/लार्गार्ड स्वामियों के रजिस्ट्रार में दर्ज होगा, केवल वे ही एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

सी. ऐसा व्यक्ति जो शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020, को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉन्गवेल-आइडी एवं पारदर्शक एवॉल्यूटिंग/एनएसईएल पर एनएसईएल को अनुरोध कर सकता है, या एनएसईएल द्वारा प्रसार किए गए टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर संपर्क कर सकता है। यह व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है उसे केवल सूचना के उद्देश्य के लिए एजीएम की सूचना को मानना चाहिए।

डी. सदस्यगण जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दे दिया है, उनके पास एजीएम में भाग लेने का अधिकार नहीं है। वार्षिक रिपोर्टों से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही ऐसे प्रस्ताव पर वोट दे चुके सदस्यों को दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यगण जिन्हें एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है, वह एनएसईएल के टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महारने, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहा. प्रबंधक, नेशनल सिन्डिकेटिड रिजॉल्यूटिव लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, दादर, मुम्बई-400 013, से नार्मोडिट ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. +91 22 24994545, +91 22 24994549 पर संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से जुड़ी सभी जानकारी का समाधान कर सकते हैं।

ई. श्री साकेत शर्मा (FCS: 4229) मैसर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी को एजीएम से पहले और उसके दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए समीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम समाप्त होने के बाद 48 घंटे के भीतर घोषित किया जाएगा। संश्लेषक की रिपोर्टों के साथ घोषित किया गया परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.dhampur.com और एनएसईएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर प्रकाशित किया जाएगा।

बुक क्लोजर:

आगे सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार कम्पनी में मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली कंपनी की 85वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रिकार्ड रखने हेतु, कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर बुक क्लोजर, 23 सितम्बर, 2020 से मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड हस्ता./- मंगल गौतम कंपनी सचिव और उपप्रधान अधिकारी सदस्यता सं. P22787

BHARTIYA BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Office: 56/7, Nallambakkam Village, (Via Vandalur) Chennai-600 048, Tamil Nadu
CIN: L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21
E: shares@bhartiia.com W: www.bhartiiafashion.com

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 33rd Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 2.00 P.M. IST through Video Conferencing (VC) facility in view of continuing outbreak of COVID-19 pandemic and in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 rules framed thereunder, SEBI LODR Regulations, 2015 read with circulars issued by MCA and SEBI in this regard, to transact the business items as set out in the notice of the AGM.

The Company has on Friday, 4th September, 2020, completed sending emails through Central Depository Services (India) Limited (CDSL), containing notice of 33rd AGM along with Annual Report for financial year ended 31st March, 2020 to members whose email IDs are registered with the Company or Depositories.

The Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote on the business items as set out in the notice of the AGM from any place ("remote e-voting"/through electronic voting system of CDSL. Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd September, 2020, may cast their vote by remote e-voting/e-voting at the AGM. Instructions & manner of casting vote through remote e-voting/e-voting at AGM including by members who are holding shares in physical form or have not registered their email ids, is provided in notice of the AGM. The remote e-voting period commences on Saturday, 26th September, 2020 (9:30 A.M. IST) and ends on Monday, 28th September, 2020 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time. The facility for e-voting at AGM shall also be made available on the day of e-AGM i.e. on 29th September, 2020. The members who have not cast their votes through remote e-voting can cast their vote at e-AGM. A member may participate in the e-AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, 22nd September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk@cdsindia.com or RTA, Mas Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. If the member forgets his password, he can reset his password by using instructions for remote e-voting contained in the AGM notice. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for Financial Year 2019-20 and login details for e-voting.

Physical Holding	Send a signed request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing FOLIO number, Name of the Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (Front and Back), PAN/Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH credit for dividends, if any, that will be declared by the company in coming years. PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 22ND SEPTEMBER, 2020

M/s. RSM & Co. Practicing Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 23rd September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

In case of any query or grievance pertaining to e-voting, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Malafial Mall Complex, N M Joshi Marg, Lower Panel, East Mumbai 400013. Email: evoting@cdsindia.com, Tel: 1800-225-5333. Further, Members may also contact with Mr. Deepanshu Raslogi, General Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83.

The aforesaid Notice of 33rd AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 are also available on the website of the Company i.e. www.bhartiiafashion.com and website of Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and Notice is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

For Bhartiya International Ltd
Sd/-
Shilpa Budhia
Date: 04.09.2020
Place: Gujranagram
(Company Secretary)

रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड

शाखा कार्यालय: छठा तल, सिनॉर्जी टावर, ए-1/13, ब्लॉक-ए, सेक्टर-62, नोएडा-201301
पंजीकृत कार्यालय - रिलायंस सेंटर, 6वां तल, साउथ बिल्डिंग, निकट प्रभात कालोनी, साताक्रोड (ईस्ट), मुंबई - 400055

कब्जा सूचना नियम-8 (1) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / सह-कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदारों / सह-कर्जदारों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्वारा कर्जदारों / सह-कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित के अधीन उक्त प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

कर्जदारों / सह-कर्जदारों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न संपत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार वारते बकाया राशि के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख		बकाया राशि
			कब्जा सूचना की तारीख		
1	1) मोहित राज, 2) राघु प्रदर, 3) प्रिया राज 4) सुनीता देवेंद्र कुमार	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्रोजेक्ट संपत्ति खेत खाता नं. 2950 / 3399, आदर्श कॉलोनी, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 में स्थित	07 मार्च 2020		₹. 13,34,421/- (₹. तेरह लाख चौरास हजार चार सौ इक्कीस मात्र) दिनांक 01.03.2020 तक हेतु लेन खाता नं. RHLPDEL000062283
			02 सितम्बर 2020		
2	1) नवीनी खान 2) रमिषा नफीस खान 3) खान डेवरी	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि संपत्ति नं. 128 और 129, खरसा नं. एमयू नं. 4, किला नं. 16/1, 125, वाका मौजा, पंचतिया कॉलोनी, फरीदाबाद - 121004 (हरियाणा) में स्थित	12 मार्च 2020		₹. 12,66,368/- (₹. बारह लाख छियासठ हजार तीन सौ अड़सठ मात्र) दिनांक 12.03.2020 तक हेतु लेन खाता नं. RHLPDEL000056922
			02 सितम्बर 2020		
3	1) डिम्पल गर्ग 2) अनुराधा गर्ग	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि संपत्ति प्लॉट नं. 19-20, एम सी नं. 37, किला नं. 23/2/2, प्लॉट नं. 19-20, लडुआ कॉलोनी फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद - 121001 में स्थित	06 मार्च 2020		₹. 8,71,887/- (₹. आठ लाख इक्करह हजार आठ सौ सत्तासी मात्र) दिनांक 06.03.2020 तक हेतु लेन खाता नं. RHAFDEL000049395 ₹. 2,84,730/- (₹. दो लाख चौरासी हजार सात सौ तीस मात्र) दिनांक 08.03.2020 तक हेतु लेन खाता नं. RHAFDEL000052621
			02 सितम्बर 2020		

कर्जदारों / सह-कर्जदारों / बंधककर्ता का ध्यान एकट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांकित: 02 सितम्बर, 2020
स्थान: फरीदाबाद

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड

इण्डियन ओवरसीज बैंक

आसित यस्सुनी प्रवर्तन शाखा (1997), पश्चिम बिल्डिंग, तीसरी सड़क, 2, राजेडा प्लेस, पुना रोड, नई दिल्ली-110008, दूरभाष: 011-25788124, ई-मेल: tob1997@iob.in

(परिशिष्ट IV के अधीन कर्जदार (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आसितियों का प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के सा 1 पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कंसोर्टियम सदस्य बैंक (इण्डियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तः तः बैंक ऑफ बड़ौदा) के अधिकृत प्राधिकारी ने के नाते रिजॉल्यूटिव अधिनियमों (नीचे वर्णित) को मांग सूचना में उल्लिखित राशि तः तः वसूली की ति। तः अनुव्यवहार धर भावी ब्याज एवं रेस्ट, प्रभारों आदि का कः तः सूचना की प्राप्ति की ति। से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहते हुए अल्लेग से मांग सूचनाएँ निर्गत कीं।

क्र. सं.	बैंक का नाम	वर्गीकरण ति।	धारा 13(2) के तहत निर्गत मांग सूचना की ति।	काँ तः मांग सूचना में उल्लिखित बकायें*	जिनको सुचनाएँ निर्गत कीं गयीं उन बंधककर्ताओं/जमानतियों के नाम तः तः सूते
1	इण्डियन ओवरसीज बैंक	30.09.2016	27.03.2019	27.03.2019 तक ₹. 34,48,11,586.51/- तः तः भावी ब्याज एवं लागतें	1. श्री राकेश भटनागर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2. श्रीमती अनुराधा भटनागर (व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 3. श्री भवनेश कुमार कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 4. श्रीमती प्रोमिला कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 5. स्व. श्री गोरा चटर्जी के विधिक उत्तराधिकारी (स्व. श्री गोरा चटर्जी को व्यक्तिगत गारंटी) पता: सी-696, न्यू फ्रेडरस कॉलोनी, नई दिल्ली-110065
					1. श्री राकेश भटनागर (बंधककर्ता तः तः जमानती) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2. श्रीमती अनुराधा भटनागर (जमानती) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 3. श्री भवनेश कुमार कैंवर (बंधककर्ता तः तः जमानती) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 4. श्रीमती प्रोमिला कैंवर (बंधककर्ता तः तः जमानती) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 5. श्री गोरा चटर्जी (जमानती) पता: सी-822, न्यू फ्रेडरस कॉलोनी, नई दिल्ली-110025
					1. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्री राकेश भटनागर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्रीमती अनुराधा भटनागर (व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 3. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्री भवनेश कुमार कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 4. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्रीमती प्रोमिला कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 5. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु स्व. श्री गोरा चटर्जी के विधिक उत्तराधिकारी (व्यक्तिगत गारंटी) पता: सी-696, न्यू फ्रेडरस कॉलोनी, नई दिल्ली-110065
3	पंजाब नेशनल बैंक	28.09.2016	10.01.2019	10.01.2019 तक ₹. 14,66,99,435/- तः तः भावी ब्याज एवं लागतें	1. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्री राकेश भटनागर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्रीमती अनुराधा भटनागर (व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 3. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्री भवनेश कुमार कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 4. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्रीमती प्रोमिला कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 5. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु स्व. श्री गोरा चटर्जी के विधिक उत्तराधिकारी (व्यक्तिगत गारंटी) पता: सी-696, न्यू फ्रेडरस कॉलोनी, नई दिल्ली-110065
					1. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्री राकेश भटनागर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्रीमती अनुराधा भटनागर (व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 3. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्री भवनेश कुमार कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 4. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्रीमती प्रोमिला कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 5. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु स्व. श्री गोरा चटर्जी के विधिक उत्तराधिकारी (व्यक्तिगत गारंटी) पता: सी-696, न्यू फ्रेडरस कॉलोनी, नई दिल्ली-110065
					1. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्री राकेश भटनागर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 2. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्रीमती अनुराधा भटनागर (व्यक्तिगत गारंटी) पता: 533, माउण्ट कैलाश, टॉवर 3, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 3. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्री भवनेश कुमार कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 4. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु श्रीमती प्रोमिला कैंवर (बंधककर्ता तः तः व्यक्तिगत गारंटी) पता: डी32, विजय नगर, नई दिल्ली-110009 5. मैसर्स रंज रेस्क्यू प्रा.लि. द्वारा ग्रहण की गयी क्रेडिट सुविधा हेतु स्व. श्री गोरा चटर्जी के विधिक उत्तराधिकारी (व्यक्तिगत गारंटी) पता: सी-696, न्यू फ्रेडरस कॉलोनी, नई दिल्ली-110065

* कृपया ध्यान दें कि बैंक को कम्पनी के एक्सपोजर आधारित गैर-निधि, यदि कोई हो, तः तः यदि निवृत्तकोेशन पर क्रिस्टलाइज हो, के सम्पूर्ण बकायें तः तः ब्याज की प्रयोज्य दर, प्रभारों तः तः मार्जिन चटकार उपलब्ध लागतों और ऐसे दावे/इनवोकेसन की ति। से आगेके द्वारा किये गये पूर्